

**प्लाज़्मा अनुसंधान संस्थान**  
इंदिरा पुल के निकट, भाट गाँव, जिला- गांधीनगर- 382 428

**विज्ञापन सं- 09/2019**

**एसआरएफ परियोजना के पद हेतु प्रत्यक्ष साक्षात्कार**

इसरो द्वारा वित्त पोषित के तहत एक एसआरएफ परियोजना के पद हेतु दिनांक 18/10/2019 को प्रत्यक्ष साक्षात्कार का आयोजन किया जा रहा है। एसआरएफ पद 18 महीने की अवधि के लिए या परियोजना के पूरा होने के साथ सह-टर्मिनस, जो भी पहले हो तब तक के लिए है। परियोजना एसआरएफ को प्रति माह ₹28000 + एचआरए का भुगतान आईपीआर के नियमों के अनुसार किया जाएगा (धनराशि एजेंसी द्वारा अनुमोदन के अधीन नए दिशानिर्देशों के अनुसार संशोधित की जा सकती है)। निम्नलिखित योग्यता वाले उम्मीदवार प्रत्यक्ष साक्षात्कार में भाग ले सकते हैं:

पद	पद की संख्या	अनिवार्य योग्यता	आयु सीमा
परियोजना एसआरएफ	01	भौतिकी में एमएससी में न्यूनतम 60 प्रतिशत।	दिनांक 18/10/2019 को 32 वर्ष से अधिक नहीं (समय-समय पर केंद्र सरकार के आदेशों के अनुसार आयु में छूट स्वीकार्य होगी।)

यदि उम्मीदवारों की संख्या 10 से अधिक है, तो एक लिखित परीक्षा आयोजित की जाएगी। लिखित परीक्षा और उसकी मेरिट सूची के आधार पर उपयुक्त उम्मीदवारों का साक्षात्कार लिया जाएगा। लिखित परीक्षा के लिए पाठ्यक्रम के लिए NET / GATE के एमएससी भौतिकी अनुसार होगा। लिखित परीक्षा पूरी तरह से स्क्रीनिंग उद्देश्य के लिए होगी और साक्षात्कार मोड के माध्यम से चयन प्रक्रिया के दौरान कोई वेटेज पर विचार नहीं किया जाएगा।

इच्छुक उम्मीदवारों से अनुरोध है कि वे विस्तृत बायोडेटा (फोटोग्राफ के साथ चिपका हुआ) और सहायक दस्तावेजों (मार्क शीट / डिग्री / प्रमाण पत्र / प्रशंसापत्र की सत्यापित प्रतिलिपियाँ) के साथ प्लाज़्मा अनुसंधान संस्थान भाट, इंदिरा ब्रीज के निकट, गांधीनगर में सेमिनार हॉल पर दिनांक 18/10/2019 को सुबह 9:00 बजे लिखित परीक्षा / साक्षात्कार के लिए उपस्थित हों। मूल दस्तावेजों की अनुपस्थिति में उम्मीदवार को लिखित परीक्षा / साक्षात्कार में भाग लेने नहीं दिया जाएगा। अधिक जानकारी के लिए, कृपया [recruitment@ipr.res.in](mailto:recruitment@ipr.res.in) पर लिखें। इसके लिये कोई टी.ए / डी.ए नहीं दिया जायेगा। 9:00 बजे के बाद पहुंचने वाले उम्मीदवारों को लिखित परीक्षा / साक्षात्कार के लिए नहीं माना जाएगा।

**मुख्य प्रशासनिक अधिकारी**